# B. SC. (HONOURS) IN BIOCHEMISTRY (BSCBCH)

## Term-End Examination December, 2023

## BBCCT-117 : GENE ORGANISATION, REPLICATION AND REPAIR

| Tin | ne : 3 | 3 Hours Maximum Marks : 70                                                                |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| No  |        | Question No. 1 is compulsory. Attempt any <b>ïve</b> questions from question nos. 2 to 8. |
| 1.  | Fill   | in the blanks:                                                                            |
|     | (a)    | B-form of DNA is handed helix while Z-form is handed helix.                               |
|     | (b)    | Define the following: 3×2=6                                                               |
|     |        | (i) Pseudogenes                                                                           |
|     |        | (ii) Positive and negative supercoiling                                                   |
|     |        | (iii) Okazaki fragments                                                                   |
|     | (c)    | Name <i>two</i> inhibitors that bind DNA non covalently.                                  |
| 2.  | (a)    | What is cot curve?                                                                        |

|    | (b)        | Describe denaturation and renaturation of DNA.                                                                                                                                                                               |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | (c)        | Give an overview of histone proteins. 6                                                                                                                                                                                      |
| 3. | (a)        | What is Karyotyping? Distinguish between Euchromatin and Heterochromatin. 4+2                                                                                                                                                |
|    | (b)        | Explain fidelity of DNA replication. 6                                                                                                                                                                                       |
| 4. | (a)<br>(b) | Describe the role of any three enzymes from the following:  (i) Primase (ii) Helicase (iii) DNA ligase (iv) Topoisomerase (v) Telomerase  Explain Rolling circle or Theta Model of DNA replication with suitable diagrams. 6 |
| 5. | Wri        | te short notes on any $two$ of the following:                                                                                                                                                                                |
|    |            | 2×6=12                                                                                                                                                                                                                       |
|    | (a)        | Bloom's syndrome                                                                                                                                                                                                             |
|    | (b)        | Non-polyposis colon cancer                                                                                                                                                                                                   |
|    | (c)        | Semi-conservative DNA replication                                                                                                                                                                                            |
| 6. | (a)        | Give an overview of extranuclear inheritance.                                                                                                                                                                                |
|    | (b)        | How is mutagenesis evaluated? Explain any <i>one</i> method.                                                                                                                                                                 |

- 7. (a) What are transposable elements? Explain their different types. 6
  - (b) Describe Holiday model of homologous recombination with the help of diagrams. 6
- 8. Differentiate between the following:  $2\times6=12$ 
  - (i) Nucleotide excision and Mismatch DNA repair
  - (ii) Spontaneous and Induced mutation.

#### **BBCCT-117**

### जैव रसायन में विज्ञान स्नातक (ऑनर्स) (बी. एस.-सी. बी. सी. एच.)

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2023

बी.बी.सी.सी.टी.-117 : जीन संगठन, प्रतिकृतियन एवं क्षतिसुधार

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 70

नोट: प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। प्रश्न सं. 2-8 तक किन्हीं **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

- 1. रिक्त स्थान भरिए :
  - (क)डी. एन. ए. का बी-रूप ..... हस्त प्राधान्य और Z-रूप .... हस्त प्राधान्य होता है। 2

(ख)निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए : 3×2=6

- (i) छद्मजीन
- (ii) धनात्मक और ऋणात्मक अधिकुण्डलन
- (iii) ओकाजाकी खण्ड

|    | (ग) किन्ही <b>दो</b> सदमको के नाम बताइए जो            |
|----|-------------------------------------------------------|
|    | डी. एन. ए. से गैर-सहसंयोजक रूप से बद्ध होते           |
|    | हैं। 2                                                |
| 2. | (क) Cot वक्र क्या होता है ?                           |
|    | (ख)डी. एन. ए. विकृतीयन तथा पुन-प्राकृतन का वर्णन      |
|    | कोजिए। 3                                              |
|    | (ग) हिस्टोन प्रोटीन का एक अवलोकन प्रस्तुत             |
|    | कीजिए। 6                                              |
| 3. | (क)गुणसूत्री रचना क्या होतो है ? यूक्रोमैटिन और       |
|    | हेटरोक्रोमैटिन में अन्तर स्पष्ट कीजिए। 6              |
|    | (ख)डी. एन. ए. प्रतिकृतियन की विश्वस्तता की चर्चा      |
|    | कीजिए। 4+2                                            |
| 4. | (क)निम्नलिखित में से किन्हीं <b>तीन</b> किण्वकों की   |
|    | भूमिका की व्याख्या कीजिए : $3\times2=6$               |
|    | (i) प्राइमेस                                          |
|    | (ii) हेलीकेज                                          |
|    | (iii) डी. एन. ए. लाइगेज                               |
|    | (iv) टोपोआइसोमरेज                                     |
|    | (v) टीलोमरेज                                          |
|    | (ख)डी. एन. ए. प्रतिकृतियन के रोलिंग सर्कल <b>अथवा</b> |
|    | थीटा मॉडल का सचित्र वर्णन कीजिए। 6                    |
|    |                                                       |

| 5. | निम्नलिखित में से किन्हीं <b>दो</b> पर संक्षिप्त टिप       | पणियाँ  |
|----|------------------------------------------------------------|---------|
|    | लिखिए : 2×                                                 | 6=12    |
|    | (क)ब्लूम संलक्षण                                           |         |
|    | (ख)नॉन-पॉलिपोसिस कोलन कैंसर                                |         |
|    | (ग) अर्धसंरक्षी डी. एन. ए. प्रतिकृतियन                     |         |
| 6. | (क)केन्द्रक बाह्य वंशागित का एक वृहद् अव                   | लोकन    |
|    | प्रस्तुत कीजिए।                                            | 6       |
|    | (ख)उत्परिवर्तजनन का मूल्यांकन कैसे किया जात                | हिं ?   |
|    | किसी <b>एक</b> विधि का वर्णन कीजिए।                        | 6       |
| 7. | (क)पारान्तरणीय तत्व क्या होते हैं ? उनके र्व               | विभिन्न |
|    | प्रकारों की चर्चा कीजिए।                                   | 6       |
|    | (ख)समजात पुनर्योजन के हॉलिडे मॉडल का                       | चित्र   |
|    | सहित वर्णन कीजिए।                                          | 6       |
| 8. | निम्नलिखित में अन्तर स्पष्ट कीजिए : 2×                     | 6=12    |
|    | (i) न्यूक्लियोटाइड उच्छेदी और कुयुग्मन डी. ए<br>क्षतिसुधार | ्न. ए.  |
|    | (ii) स्वत: और प्रेरित उत्परिवर्तन                          |         |